

कर्मचारी चयन आयोग

आशुलिपिक श्रेणी 'ग' और 'घ' परीक्षा 2018 – अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा

कर्मचारी चयन आयोग ने दिनांक 05.02.2019 से 08.02.2019 तक पूरे देश में विभिन्न केन्द्रों पर आशुलिपिक श्रेणी 'ग' और 'घ' परीक्षा 2018 के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया था। उक्त परीक्षा में कुल पंजीकृत 436910 अभ्यर्थियों में से 185356 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे।

2. कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर, 11211 अभ्यर्थियों ने आशुलिपिक श्रेणी 'ग' के पद के लिए कौशल परीक्षा में बैठने के लिए अनंतिम रूप से अर्हता प्राप्त की है तथा 15953 अभ्यर्थियों ने आशुलिपिक श्रेणी 'घ' के पद के लिए कौशल परीक्षा में बैठने के लिए अनंतिम रूप से अर्हता प्राप्त की है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में आयोग द्वारा निर्धारित कट-ऑफ अंक तथा विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अर्हता प्राप्त अर्हक अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार है:-

सूची- I: आशुलिपिक श्रेणी 'ग' के लिए आशुलिपि में कौशल परीक्षा हेतु अर्हक अभ्यर्थी :

	अजा	अजजा	अपिव	अना	योग	अ.दि.	दृ.दि.	अन्य
कट-ऑफ अंक	119.00	105.00	133.00	138.00	-	90.00	88.00	40.00
अर्हक अभ्यर्थी	1758	784	3420	3994	9956	288	100	79

नोट -1: 425 अजा, 73 अजजा, 2148 अपिव, 9 अ.दि., 7 दृ.दि. और 01 अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों ने अना मानक पर अर्हता प्राप्त की है जिसे उनके संबंधित श्रेणी में दर्शाया गया है। ऐसे अजा, अजजा और अपिव अभ्यर्थियों को अना श्रेणी में नहीं दर्शाया गया है।

सूची- II: आशुलिपिक श्रेणी 'घ' के लिए आशुलिपि में कौशल परीक्षा हेतु अर्हक अभ्यर्थी :

	अजा	अजजा	अपिव	अना	योग	भू.पू.सै	अ.दि	दृ.दि	अना
कट-ऑफ अंक	113.00	97.00	130.00	134.00	-	40.00	90.00	56.00	40.00
अर्हक अभ्यर्थी	2430	1139	4257	5067	12893	458	271	219	75

नोट -2: 574 अजा, 93 अजजा, 2855 अपिव, 49 भू.पू.सै, 14अ.दि., 10 दृ.दि. और 01 अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों ने अना मानक पर अर्हता प्राप्त की है जिसे उनके संबंधित श्रेणी में दर्शाया गया है। ऐसे अजा, अजजा और अपिव अभ्यर्थियों को अना श्रेणी में नहीं दर्शाया गया है।

नोट -3 : क्षैतिज श्रेणियों (अर्थात अ.दि., दृ.दि., भू.पू.सै. तथा अन्य) से संबंधित अभ्यर्थियों को उनके संबंधित ऊर्ध्वाधर श्रेणियों (अर्थात अजा, अजजा, अपिव और अन्य) के लिए भी गिना गया है।

नोट-4: दृष्टि दिव्यांग तथा अन्य श्रेणियों के लिए 20% की न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अर्थात 40.00 अंक प्रयुक्त किया गया है।

3. परीक्षा की विज्ञप्ति की पैरा 12 (घ) के अनुसार, "कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यदि एक से अधिक पाली में आयोजित की गई हो, अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक सामान्यीकृत किए जाएंगे और इस तरह के सामान्यीकृत अंक का अंतिम योग्यता निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा "। चूंकि कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई पालियों में आयोजित की गई थी, इसलिए अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित सूत्र के अनुसार सामान्यीकृत किया गया है। इस तरह के सामान्यीकृत अंकों का उपयोग कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अर्हक घोषित करने के लिए किया गया है।

4. अनंतिम उत्तर कुंजियों के संबंध में अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है। जहां कहीं भी अभ्यावेदन वास्तविक पाए गए, उत्तर

कुंजियों को संशोधित किया गया तथा मूल्यांकन के लिए संशोधित उत्तर कुंजियों का प्रयोग किया गया था।

5. आरक्षित श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों की श्रेणी स्थिति उनके अनुक्रमांक के साथ दर्शाया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान देना आवश्यक है कि उन्हें केवल उनके अनुक्रमांक के समक्ष उल्लिखित श्रेणी के लिए अर्हक घोषित किया गया है। यदि उसकी वास्तविक श्रेणी उसकी श्रेणी के समक्ष उल्लिखित श्रेणी से मेल नहीं खाती है तो वह इस सूची में शामिल होने के लिए योग्य नहीं होंगे। अतः यह संबंधित अभ्यर्थी के हित के लिए है कि वह ऐसे मामलों के लिए तुरंत आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें।

6. कौशल परीक्षा का कार्यक्रम क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा यथा समय पर सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट को देखते रहे।

7. इस परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट अर्थात् <https://ssc.nic.in> पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों के अंक आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 19.04.2019 को उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी अपने पंजीकरण संख्या और पंजीकृत पासवर्ड का उपयोग करके 01 महीने की अवधि तक अपने व्यक्तिगत अंकों की जांच कर सकते हैं (लॉगिन करने के बाद, कैंडीडेट्स डेसवोर्ड पर रिजल्ट / मार्क्स लिंक पर क्लिक करें)।

अवर सचिव (गो-1/2)
15-04-2019